

पंचवर्षीय समीक्षा दल ने कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा

कृषि विज्ञान केन्द्र, जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में दिनांक 22.9.2019 को भारत सरकार द्वारा गठित पंचवर्षीय समीक्षा दल के सदस्यों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, जबलपुर एवं कटनी का भ्रमण किया गया। इस दौरान किसानों के प्रक्षेत्र पर केन्द्र द्वारा प्रसारित तकनीकों का अवलोकन किया जिसमें प्रमुख रूप से मूंग उत्पादन तकनीक, कृषि वानिकी पद्धति, धान पर डाले गये प्रदर्शन व समन्वित खेती प्रमुख रही।

कृषि विज्ञान केन्द्र, जबलपुर पर स्थापित प्रदर्शन ईकाई, फसल कैफेटेरिया, क्राप म्युजियम, किसान कार्नेर, इ- लिंकेज लैब आदि का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर समीक्षा दल की अध्यक्षता कर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के पूर्व कुलपति प्रो. गया प्रसाद, समीक्षा दल के अन्य सदस्य डॉ. ओ.पी. सिंह पूर्व संचालक विस्तार सेवार्यें, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ तथा डॉ. वाई.पी.एस. डभास संचालक विस्तार सेवार्यें पंतनगर ने कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की तथा किसानों की आय दुगुनी किये जाने के प्रयास में कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी, जबलपुर के संचालक डॉ. अनुपम मिश्रा, संचालक विस्तार सेवार्यें डॉ. ओम गुप्ता, संयुक्त संचालक प्रसार डॉ. डी.पी. शर्मा, प्रमुख वैज्ञानिक अटारी डॉ. एस.आर.के. सिंह, डॉ. अजय राउत की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में कार्यक्रम का संचालन किया गया तथा समीक्षा दल द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र पर उपस्थित किसानों एवं कृषक महिलाओं से चर्चा भी की गई।

कार्यक्रम को सफल बनाने में कृषि विज्ञान केन्द्र, जबलपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. रश्मि शुक्ला, वैज्ञानिक डॉ. डी.के. सिंह, डॉ. ए.के. सिंह, डॉ. नीलू विश्वकर्मा, डॉ. अक्षता तोमर, डॉ. नितिन सिंघई, डॉ. प्रमोद शर्मा, श्रीमति जीजी एनी का महात्वपूर्ण योगदान रहा।



Field visit of QRT to Mohatara-Muskara village



Addressing of QRT chairman Dr.Gaya Prasad at KVK



Visit of QRT to Kisan corner of KVK



Visit of QRT to Fruit and Vegetable Cafeteria